

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ (कैमूर)

Email ID- ee.rwdworkmohania@gmail.com

Mob.- 8986915825

पत्रांक.....341.1 (अनु)

मोहनियाँ / दिनांक...9.2.24

प्रेषक,

ई0 सुजीत कुमार रंजन,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ (कैमूर)।

सेवा में,

बैंक ऑफ बरौदा,
आरा,

विषय :-

FD सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि आपके शाखा द्वारा निर्गत **FD** सत्यापन हेतु भेजा जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है-

Sl. No.	FD NO.	Date	Amount
1.	12040300033907	09.02.2024	30000.00
2.	12040300033858	02.02.2024	15500.00
Total			35500.00

अतः उक्त **Certificate** की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त **FD** का सत्यापन

Email ID- ee.rwdworkmohania@gmail.com पर तत्काल करने की कृपा की जाय।

अनु- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ

Nitesh
9/2/24

E.E. RWD WORK DIV. ~~FRANCHISING~~



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



MANISH KUMAR SINGH

SO JAI NARAYAN SINGH, VILL PO SAKADDI,
PS KOHLWAR
802158
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12040300033858
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0202245356
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	076095982
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12040200000377
शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	EWAPS7020G	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
15500	02-02-2024	6.85	12 Months 0 Days	02-02-2025	16589


*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- छात्र दर प्राप्ति पर लागू है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज:
- यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- यदि अवधि 1 वर्ष से कम के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय न्यूनतम अवधि के अनुसार किया जाएगा।
- फॉर्म 15G और 15H निवासी खातों के लिए है।
- नया 15G/15H (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सोलर कर कटौती की जाएगी।
- फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
- प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज:
- 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए जमा राशि पर 1% ब्याज का प्रावधान है। यदि प्रीमच्यूर विलड्रॉल के लिए फॉर्म 15G/15H का प्रावधान है, तो 1% ब्याज का प्रावधान होगा।
- 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जमा राशि पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है। प्रीमच्यूर विलड्रॉल के लिए फॉर्म 15G/15H का प्रावधान है, तो 1.5% ब्याज का प्रावधान होगा।
- प्रीमच्यूर विलड्रॉल के लिए फॉर्म 15G/15H का प्रावधान है, तो 1.5% ब्याज का प्रावधान होगा।

- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause:
- For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause:
- Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
- Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

MANISH KUMAR SINGH		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12040300033907
SO JAI NARAYAN SINGH, VILL. PO SAKADDI, PS KOHLWAR 802158 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0902243519
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	076095982
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12040200000377
		शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHHBIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	EWAPS7020G	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
30000	09-02-2024	6.85	12 Months 0 Days	09-02-2025	32108

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. खाते पर प्रतिष्ठान में खार्चक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज 3. यदि अवधि अनुदेशन में दिये गये 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण अवधि के समाप्ति पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। 4. कोई निदेशन न दिये जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय ब्याज दर पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 5. फॉर्म 15G और 15H सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 6. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15G/15H फॉर्म प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 7. फॉर्म 15H केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र से ही स्वीकार किया जाएगा। 8. फॉर्म 15G/15H के अभाव में स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 9. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों की समयपूर्व वंद करने पर 1% वंद का प्रावधान है अर्थात् वंद करने की तिथि पर लागू काई दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 10. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशियों की समयपूर्व वंद करने पर 1.5% वंद का प्रावधान है अर्थात् वंद करने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 11. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 12. निम्नलिखित जमा के प्रकार - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature